



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 अग्रहायण 1939 (श10)  
(सं० पटना 1166) पटना, सोमवार, 11 दिसम्बर 2017

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

1 दिसम्बर 2017

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-06/2017/1187—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित 27 व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और चूँकि प्रत्येक व्यापार मंडल सहयोग समिति में अध्यक्ष के पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के पदों के लिए निर्वाचन कराया जायेगा, तथा सदस्य के पदों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित कुल 27 व्यापार मंडल सहयोग समितियों के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक **05.01.2018 (शुक्रवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को

निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1083 दिनांक 03.11.2017 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2017 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.11.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 11.12.2017 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन व्यापार मंडलों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।  
अनुलग्नक-1

निर्वाचन देय व्यापार मंडल समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
1	मधेपुरा	मधेपुरा	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, मधेपुरा
2	मधेपुरा	सिंहेश्वर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, सिंहेश्वर
3	मधेपुरा	मुरलीगंज	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, मुरलीगंज
4	मधेपुरा	कुमारखण्ड	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, कुमारखण्ड
5	मधेपुरा	गम्हरिया	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, गम्हरिया
6	मधेपुरा	धैलाढ़	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, धैलाढ़
7	मधेपुरा	शंकरपुर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, शंकरपुर
8	मधेपुरा	आलमनगर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, आलमनगर
9	मधेपुरा	बिहारीगंज	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, बिहारीगंज
10	मधेपुरा	पुरैनी	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, पुरैनी
11	बेगूसराय	गढ़पुरा	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, गढ़पुरा
12	बेगूसराय	नावकोठी	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, नावकोठी
13	शेखपुरा	शेखपुरा	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, शेखपुरा
14	प0 चम्पारण	बगहा-1	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, बगहा-1
15	दरभंगा	दरभंगा	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, दरभंगा

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
16	दरभंगा	कुशेश्वरस्थान	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, कुशेश्वरस्थान
17	दरभंगा	बहादुरपुर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, बहादुरपुर
18	खगड़िया	चौथम	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, चौथम
19	खगड़िया	अलौली	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, अलौली
20	खगड़िया	मानसी	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, मानसी
21	खगड़िया	बेलदौर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, बेलदौर
22	खगड़िया	खगड़िया	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, खगड़िया
23	मधुबनी	कलुआही	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, कलुआही
24	मधुबनी	लखनौर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, लखनौर
25	बक्सर	राजपुर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, राजपुर
26	लखीसराय	हलसी	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, हलसी
27	पटना	खुसरूपुर	व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, खुसरूपुर

## अनुलग्नक-2

### अनुलग्नक-1 में उल्लिखित व्यापार मंडल के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	11.12.2017 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.12.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	27.12.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय	28.12.2017 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	05.01.2018 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	05.01.2018 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

**व्यापार मंडल निर्वाचन**

**प्रपत्र-1**  
**सूचना का प्रपत्र**  
**(नये व्यापार मंडल के लिए)**

जिला ....., प्रखंड.....के व्यापार मंडल ....., निबंधन संख्या....., पता .....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

**आम सूचना**

- (i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
<b>प्रथम वर्ग से</b>	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	10
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरुष-1 एवं महिला-1)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरुष-1 एवं महिला-1)
• सामान्य कोटि	05 पद (अनारक्षित; पुरुष-3 एवं महिला-2)
<b>द्वितीय वर्ग से</b>	
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	03
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित; पुरुष-1 एवं महिला-1)

- (ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में..... (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को..... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ..... (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक ..... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से..... (स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

**व्यापार मंडल निर्वाचन**

**प्रपत्र-1**  
**सूचना का प्रपत्र**  
**( पुराने व्यापार मंडल के लिए )**

जिला ....., प्रखंड.....के व्यापार मंडल ....., निबंधन संख्या....., पता .....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है, मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

**आम सूचना**

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	01 (अनारक्षित)
<b>प्रथम वर्ग ( सहयोग समितियाँ ) से</b>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरुष-2 एवं महिला-1)
<b>द्वितीय वर्ग ( व्यक्तिगत किसान ) से</b>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरुष-2 एवं महिला-1)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में..... (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को..... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ..... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी।
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक ..... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से..... (स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-  
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 1166-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>